



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 13-मई 19, 2007, शनिवार/वैशाख 23-वैशाख 29, 1929
No. 20] NEW DELHI, MAY 13-MAY 19, 2007, SATURDAY/VAISAKHA 23-VAISAKHA 29, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मई, 2007

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची के स्तंभ 8 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“आवश्यक :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाज शास्त्र/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/समाज/संस्कृति/मानवशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

वांछनीय :

समाज कल्याण कार्यक्रम और समाज कल्याण सांख्यिकी/फील्ड सर्वेक्षणों में समेकन का सरकार या लोक क्षेत्र संगठन में एक वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए।”

[फा. सं. ए-12018/2/99-स्था.]

जे. पी. मेहता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 245, तारीख 30 जून, 2005 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 4th May, 2007

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Social Justice and Empowerment (Research Investigator) Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment (Research Investigator) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Social Justice and Empowerment (Research Investigator) Recruitment Rules, 2005, in the Schedule, in Column 8 for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Essential :

Master’s Degree in Social Work/Sociology/Statistics/Economics/Social/Cultural Anthropology of a recognized University or equivalent.

Desirable :

Minimum experience of one year in Government or Public Sector Organisation in Social Welfare Programme and compilation of social welfare statistics/field surveys.”

[F. No. A-12018/2/99-Estu.]

J. P. MEHTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification Number GSR 245, dated 30th June, 2005.

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(स्थापना-I अनुभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सा.का.नि. 79.—पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में 1640-60-2600-ईबी-75-2900 रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद (समूह ‘ख’ अराजपत्रित) के भर्ती नियम, जो सा.का.नि.सं. 491, दिनांक 24-10-1996 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. ए-12018/2/92-ई-1 के तहत जारी किए गए थे, को डि-नोटिफाई किया जाए।

[सं. ए-11015/1/2003-स्था-1]

पूष्पिमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(Establishment-I Section)

New Delhi, the 3rd May, 2007

G.S.R. 79.—The Recruitment Rules for the post of Senior Library & Information Assistant (Group ‘B’ Non-Gazetted) in the pay scale of Rs. 1640-60-26-EB-75-2900 (per-revised) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways, issued vide Notification No. A-12018/2/92-E-I published in the Gazette of India vide GSR No. 491 dated 24-10-1996 may be denotified.

[No. A-11015/1/2003-E-I]

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 2007

सा.का.नि.80.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशु पालन डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, राष्ट्रीय पशु संस्थान, बागपत में (i) भंडारी (ii) आशुलिपिक श्रेणी-III और (iii) लिपिक-सह टंकक (समूह 'ग') के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणा, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. भंडारी	1*(एक) *(2006) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-150- 8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

(7)			
		<p>जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
<p>आवश्यक अर्हताएं :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण या समतुल्य।</p> <p>(ii) भंडारण या सेवाओं को संभालने का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से डिग्री।</p> <p>(ii) वैज्ञानिक संगठन/प्रयोगशाला में भंडारण का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)	(14)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा है) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4500-7000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति</p>		<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (पशुपालन)/उपसचिव (पशुपालन) संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) अवर सचिव (पशुपालन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी 	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>—सदस्य</p> <p>—सदस्य</p> <p>—सदस्य</p>

(12)

के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है और जिसके पास स्तम्भ 8 में यथाउपदर्शित अर्हता है।

टिप्पण 1:—प्रतिनियुक्ति सविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. आशुलिपिक श्रेणी-III	04*(चार) (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' *कार्यभार के अराजपत्रित, अनुसचिवीय आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
						टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक अर्हताएं :	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य।			टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रति-नियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :-
(ii) (अंग्रेजी या हिन्दी) में आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति			

(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	<p>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (पशुपालन)/उपसचिव (पशुपालन) -अध्यक्ष संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) -सदस्य अवर सचिव (पशुपालन) -सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी -सदस्य 	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. लिपिक सह-टंकक	02*(दो) (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>आवश्यक अर्हताएं :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य।</p> <p>(ii) (अंग्रेजी या हिन्दी) में आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति ।</p>	लागू नहीं होता	2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :-</p>

(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	<p>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (पशुपालन)/उपसचिव (पशुपालन) -अध्यक्ष संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) -सदस्य अवर सचिव (पशुपालन) -सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी -सदस्य 	लागू नहीं होता ।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)
 New Delhi, the 7th May, 2007

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of (i) Store Keeper, (ii) Stenographer grade III and (iii) Clerk-cum-Typist (Group 'C') in the National Institute of Animal Health, Bagpat, Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Institute of Animal Health, Bagpat, (Group 'C' posts), Recruitment Rules 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit and educational, qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Store Keeper	*1(one) (2006) *Subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8,000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)		(8)		(9)	(10)
18 to 27 years (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of General candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and		Essential Qualifications : (i) 10+2 Pass or equivalent from a recognised University/Board. (ii) 8 years experience in handling stores & accounts.		Not applicable	2 years

(7)	(8)
<p>Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Desirable :</p> <p>(i) Degree from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Store Keeping experience in scientific organization/ laboratory.</p>
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
By deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation including short-term contract Officer of the Central Government :</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or</p> <p>(ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500—7000, or</p> <p>(iii) with 8 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000—6000 and possessing the qualification as indicated in column 8.</p> <p>Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Animal Husbandry)/Deputy Secretary (Animal Husbandry) —Chairman 2. Joint Commissioner/Deputy Commissioner (Livestock Health) —Member 3. Under Secretary (Animal Husbandry) —Member 4. An officer representing SC/ST —Member 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade III	*4(2006) *Subject to variation dependant on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	Essential Qualifications : (i) Matriculation or equivalent from a recognised University/Board. (ii) A speed of 80 words per minute in stenography in (English or Hindi)	Not applicable	2 years
Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.			

(11)	(12)
Direct recruitment.	Not applicable.
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column 8.	

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation :	Not applicable
1. Director (Animal Husbandry)/Deputy Secretary (Animal Husbandry)	—Chairman
2. Joint Commissioner/Deputy Commissioner (Livestock Health)	—Member
3. Under Secretary (Animal Husbandry)	—Member
4. An Officer representing SC/ST	—Member

2323 GT/07-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk-cum-Typist.	*2(2006) *Subject to variation dependant on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-4590	Not applicable	Not applicable
7			8	9	10
18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of General candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).		Essential Qualifications : (i) Matriculation or equivalent from a recognised Board. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi)		Not applicable	2 years
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.					
(11)			(12)		
Direct recruitment.			Not applicable.		
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column 8.					
(13)			(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation :			Not applicable		
1. Director (Animal Husbandry)/Deputy Secretary (Animal Husbandry)			—Chairman		
2. Joint Commissioner/Deputy Commissioner (Livestock Health)			—Member		
3. Under Secretary (Animal Husbandry)			—Member		
4. An Officer representing SC/ST			—Member		

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मई, 2007

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक वेधक-सह-मेकेनिक) भर्ती नियम, 2004 और (2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वेल्डर) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकांश से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, में सहायक वेधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक-वेधक-सह मेकेनिक भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक वेधक सह-या मेकेनिक	318* (2007)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से

(7)		
(उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।		
टिप्पण 2 : उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से यांत्रिक/वेधन/खनन/पेट्रोलियम इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य और वेल्डिंग की जानकारी रखता हो या मेट्रिकुलेट या समतुल्य तथा वेल्डिंग व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र एवं जल कुंआ वेधन मशीनों के रखरखाव में कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा व्यावहारिक परीक्षण में सफलता प्राप्त हो।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले/तकनीकी प्रचालक (वेधन) के लिए दो वर्ष संपीडित्र प्रचालक लुहार के लिए कुछ नहीं।
टिप्पण :- अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति : 90 प्रतिशत पद ऐसे तकनीकी प्रचालकों (वेधन) (2650-4000 रु.) में से जिन्होंने बारह वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अन्तर्गत निर्धारित कर्म स्थापन में की गई नियमित सेवा की है</p> <p>10 प्रतिशत पद ऐसे संपीडित्र प्रचालक (3050-4590 रु.) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीकी प्रचालकों (वेधन) में से जिन्होंने निर्धारित कर्म स्थापन में 12 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता।

जिनमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड | —अध्यक्ष |
| 2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड | —सदस्य |
| 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कार्यपालक इंजीनियर से अन्यून पक्ति का एक अधिकारी | —सदस्य |
| 4. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | —सदस्य |

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|----------|
| 1. निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | —अध्यक्ष |
| 2. अधीक्षण अभियंता केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड | —सदस्य |

[फा. सं. 23/26/98-जी डब्ल्यू-1]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th May, 2007

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (1) Central Ground Water Board Assistant Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004 and (2) Central Ground Water Board (Welder) Recruitment Rules, 1976 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Driller-cum-Mechanic in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Assistant Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

2323 GI/07-4

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Driller-cum-Mechanic	318* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)	(8)		(9)		(10)
25 years (Relaxable for Government servants and Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates upto five years and for Other Backward Classes candidates upto 3 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). Note 1. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other	Diploma in Mechanical/ Drilling/Mining/Petroleum Engineering from a recognized Institute or equivalent or Matriculate or equivalent with Industrial Training Institute certificate in Welding trade and at least two years' experience in maintenance of Water Well Drilling Machines and success in practical test. Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of.		No		Two years for direct recruits/Technical Operator (Drilling). Nil for Compressor Operator

(7)	(8)
<p>than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts the appointments to which are made through employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case will be the last date upto which the Employment Exchanges asked to submit the names.</p>	<p>candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
<p>Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made</p>
(11)	(12)
<p>By Promotion failing which by direct recruitment.</p>	<p>Promotion : 90 % posts from Technical Operator (Drilling) (Rs. 2650-4000) with twelve years regular service including regular service rendered in the Work Charged establishment. 10% posts from Compressor Operator (Rs. 3050-4590) with eight years regular service in the grade, failing which from amongst Technical Operator (Drilling) with 12 years regular service rendered in the Work Charged establishment.</p>
<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</p>
(13)	(14)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member 3. An Officer from another Central Government Department not below the rank of Executive Engineer —Member 4. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member 	<p>Not applicable.</p>

नई दिल्ली, 9 मई, 2007

सा.का.नि. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1996 की अनुसूची के स्तंभ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्रोन्नति :

(क) ऐसे सदस्य, जिन्होंने 18400-22400 रुपए के वेतनमान में केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड की उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, ऐसे सदस्य के न हो सकने पर, सदस्य और क्षेत्रीय निदेशक (14300-18300 रुपए) की उस श्रेणी में छह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है, जिसमें कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सदस्य की उस श्रेणी में होनी चाहिए; और

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/कृषि खनिज/ड्रिलिंग/पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी इंजिनियरिंग में डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान, जल विज्ञान, भू-भौतिकी या रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री रखता है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित हैं) :

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों या अर्द्धसरकारी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पर धारण किया है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 18400-22400 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य ; या

(ii) जिसके पास भूमिगत जल संसाधन के सर्वेक्षण, खोज, विकास, रेजिम मैनेजिंग, अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिंचाई और प्रबंध के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करों की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. 21/2/99-जी डब्ल्यू-1]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 397 तारीख 21-9-1996 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 191 तारीख 31-3-2001, सा.का.नि. सं. 452 तारीख 18-8-2001, सा.का.नि. सं. 350 तारीख 4-10-2003 और सा.का.नि. सं. 26 तारीख 24-1-2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 9th May, 2007

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996, in Column 12, for the existing entry, the following entry shall be substitute, namely :—

“Promotion

(a) Member in the pay scale of Rs. 18400—22400, the Central Ground Water Board with three years regular service in the grade; failing which Member, Central Ground Water Board with six years combined regular service in the grade of Member and Regional Director (Rs. 14300—18300) Central Ground Water Board of which atleast two year's regular service in the grade of Member, Central Ground Water Board; and

(b) Possessing a Master's Degree in Science in the field of Geology, Hydrogeology, Geophysics or Chemistry from a recognized University or equivalent or Degree in Engineering in Civil/Mechanical/Electrical/Agricultural/Mining/Drilling/Petroleum Technology or equivalent from a recognized University.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term Contract)

1. Officers under the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organizations or Semi-Government Organizations or Public Sector Undertakings :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 18400—22400 or equivalent in the parent cadre or department or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications or experience :—
- (i) Master's Degree in Science or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent;
- (ii) having twenty years experience in the fields of Survey, Exploration, Development, Regime Monitoring, Research, Training, Minor Irrigation and Management of Ground Water Resources.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F.No.21/299-GW-I.]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India vide GSR 397 dated 21-9-1996 and subsequently amended vide number GSR 191 dated 31-3-2001, GSR 452 dated 18-8-2001, GSR 350 dated 04-10-2003 and GSR 26 dated 24-01-2004.

2323 GF/07-5

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th May, 2007

G.S.R. 83.—In the following notification published in the Gazette of India Part-II, Section 3 (i) dated the 13th January, 2007 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Member in Central Ground Water Board a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following corrections/additions may be made :

- (ii) In the Central Ground Water Board (Member) Recruitment (Amendment) Rules, 2007 (GSR 6, dated the 13th January, 2007) in column 12 of the Schedule relating to field of promotion for the existing entries in the Note appearing under Promotion the following entries may be read :

Note : The qualifying or eligibility service or one year may be read as "Two years" instead of 'one year'.

[F.No.21/01/2006-CGWB]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 2007

सा.का.नि. 84.—इस मंत्रालय की दिनांक 4-10-2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, श्री अवधेश कुमार, निदेशक को उन्हें आर्बिट्रट किए गए निम्नलिखित कार्यों के संबंध में केंद्रीय जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है :

1. अल्कोहलिक बेवरिज, वातित और मृदु पेय
2. चावल मिलिंग
3. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र
4. आटा मिलिंग
5. कम्प्यूटरीकरण
6. स्ट्रीट फूड
7. दाल क्षेत्र
8. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 से संबंधित कार्य
9. मांस और पॉल्ट्री उद्योग और मछली प्रसंस्करण ।

[सं. ए-42013/3/2005-प्रशा.]

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 14th May, 2007

G.S.R. 84.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 4-10-2006, Shri Awadesh Kumar, Director is nominated as Central Public Information Officer in respect of the following works allocated to him :

1. Alcoholic, beverages, aerated and soft drinks
2. Rice Milling
3. PPRC
4. Flour Milling
5. Computarization
6. Street Food
7. Pulse Sector
8. Works relating to MFPO 1973
9. Meat and Poultry industries and Fish Processing.

[No. A-42013/3/2005-Admn.]

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम रोजगार मंत्रालय में प्रशिक्षण निदेशालय (महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' गैर तकनीकी पद भर्ती नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त प्रशिक्षण निदेशालय (महिला वृत्तिक प्रशिक्षण को छोड़कर) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह 'ग' गैर तकनीकी पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त भर्ती नियमों की अनुसूची में, जहां तक उसका संबंध गेस्टेटर ऑपरेटर के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 से है,—

(i) स्तंभ 7 से स्तंभ 10 के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर “लागू नहीं होता” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) स्तंभ 12 के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी :—

“प्रोन्नति :

श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी, जिन्होंने 2750-4000 रुपए के वेतनमान की उस इकाई की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से, जिन्होंने 2610-3540 रुपए के वेतनमान की उस इकाई की श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, दोनों के न हो सकने पर 2550-3200 रुपए के वेतनमान में ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से, जिन्होंने उस इकाई में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति

केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 2750-4400 रुपए के वेतनमान में तीन वर्ष के लिए या 2550-3200 रुपए के वेतनमान में आठ वर्ष के लिए सदृश पद धारण किए हैं।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. डीजीईएंडटी-ए-12018/2/1999-टीए-II]

अनिल कुमार, अवर सचिव

मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 405 तारीख 26-11-2005 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 3rd May, 2007

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make the following rules further to amend the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Group 'C' Non Technical Posts Rules, 2005, in the Ministry of Labour and Employment namely:

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Group 'C' Non Technical Posts (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In schedule to the said Recruitment Rules so far as it relates to Serial number 6 relating to post of Gestetner Operator,

(i) for the entries under the columns 7 to 10 the entry "Not Applicable" shall be substituted;

(ii) for the entries under the columns 12 the following entries shall be substituted namely :—

"Promotion :

Group 'D' employees in the Directorate General of Employment and Training Ministry of Labour and Employment in the pay scale of Rs. 2750-4000 with three years regular service in the grade in the Unit failing which from Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2610-3540 with six years regular service in the grade in the Unit failing both from Group 'D' employees in the pay scale of Rs. 2550-3200 with eight years regular service in the grade in the unit.

Deputation

Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the pay scale of Rs. 2750-4400 for three years or in the pay scale of Rs. 2550-3200 for eight years.

(The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years)"

[F. No. DGE&T-A-12018/2/1999-TA-II]

ANIL KUMAR, Under Secy.

The Principal rules were published vide notification no. GSR-405 dated 26-11-2005.